



# भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

## साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 32

07 अप्रैल, 2017

संख्या 14

### 1. भारतीय रिज़र्व बैंक – देयताएं और आस्तियां \*

(₹ बिलियन)

| मद                                      | 2016             | 2017             |                  | घट – बढ़      |                  |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|                                         | 1 अप्रैल         | 24 मार्च         | 31 मार्च         | सप्ताह        | वर्ष             |
|                                         | 1                | 2                | 3                | 4             | 5                |
| <b>1 जारी नोट</b>                       | <b>16,415.71</b> | <b>12,881.41</b> | <b>13,101.93</b> | <b>220.52</b> | <b>-3,313.78</b> |
| 1.1 संचलन में नोट                       | 16,415.58        | 12,881.26        | 13,101.81        | 220.55        | -3,313.77        |
| 1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट           | 0.13             | 0.15             | 0.12             | -0.03         | -0.01            |
| <b>2 जमा राशियां</b>                    |                  |                  |                  |               |                  |
| 2.1 केंद्र सरकार                        | 1.00             | 1.00             | 50.00            | 49.00         | 49.00            |
| 2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना               | —                | —                | —                | —             | —                |
| 2.3 राज्य सरकारें                       | 0.42             | 0.42             | 0.42             | —             | —                |
| 2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक               | 4,746.08         | 4,240.95         | 5,087.73         | 846.78        | 341.64           |
| 2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक          | 38.93            | 36.99            | 55.13            | 18.14         | 16.20            |
| 2.6 अन्य बैंक                           | 240.60           | 267.47           | 298.41           | 30.94         | 57.81            |
| 2.7 अन्य                                | 2,522.68         | 5,769.31         | 4,897.74         | -871.57       | 2,375.05         |
| 3 अन्य देयताएं                          | 9,659.61         | 8,647.22         | 8,411.18         | -236.04       | -1,248.43        |
| <b>कुल देयताएं / आस्तियां</b>           | <b>33,625.04</b> | <b>31,844.76</b> | <b>31,902.54</b> | <b>57.78</b>  | <b>-1,722.50</b> |
| 1 विदेशी मुद्रा आस्तियां                | 22,474.82        | 22,765.22        | 22,685.84        | -79.38        | 211.02           |
| 2 सोने के सिक्के और सोना-चांदी          | 1,334.29         | 1,329.01         | 1,288.27         | -40.74        | -46.02           |
| 3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित) | 6,159.58         | 7,472.92         | 7,494.91         | 21.99         | 1,335.33         |
| <b>4 ऋण और अग्रिम</b>                   |                  |                  |                  |               |                  |
| 4.1 केंद्र सरकार                        | —                | —                | —                | —             | —                |
| 4.2 राज्य सरकारें                       | 0.88             | 26.81            | 12.62            | -14.18        | 11.74            |
| 4.3 नाबार्ड                             | —                | —                | —                | —             | —                |
| 4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक               | 3,264.04         | 78.00            | 218.10           | 140.10        | -3,045.94        |
| 4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक          | —                | —                | —                | —             | —                |
| 4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक          | —                | —                | —                | —             | —                |
| 4.7 भारतीय निर्यात-आयात बैंक            | —                | —                | —                | —             | —                |
| 4.8 अन्य                                | 177.83           | 29.05            | 39.91            | 10.86         | -137.92          |
| <b>5 खरीदे और भुनाए गए बिल</b>          |                  |                  |                  |               |                  |
| 5.1 वाणिज्यिक                           | —                | —                | —                | —             | —                |
| 5.2 खजाना                               | —                | —                | —                | —             | —                |
| 6 निवेश                                 | 23.20            | 23.20            | 33.20            | 10.00         | 10.00            |
| 7 अन्य आस्तियां                         | 190.39           | 120.55           | 129.69           | 9.14          | -60.70           |

\* डाटा अर्न्तम है।

### 2. विदेशी मुद्रा भंडार

| मद                                        | 31 मार्च, 2017 को |                  | निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ |                |                          |                |              |                 |
|-------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------|-----------------|
|                                           |                   |                  | सप्ताह                     |                | मार्च 2016 की समाप्ति पर |                | वर्ष         |                 |
|                                           | ₹ बिलियन          | मिलि.अम. डॉलर    | ₹ बिलियन                   | मिलि.अम. डॉलर  | ₹ बिलियन                 | मिलि.अम. डॉलर  | ₹ बिलियन     | मिलि.अम. डॉलर   |
|                                           | 1                 | 2                | 3                          | 4              | 5                        | 6              | 7            | 8               |
| <b>1 कुल भंडार</b>                        | <b>23,982.0</b>   | <b>369,954.7</b> | <b>-120.8</b>              | <b>2,022.6</b> | <b>194.6</b>             | <b>9,778.5</b> | <b>222.3</b> | <b>10,194.9</b> |
| 1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां                | 22,449.4          | 346,318.5        | -76.8                      | 2,083.4        | 258.8                    | 10,214.6       | 286.5        | 10,631.9        |
| 1.2 स्वर्ण                                | 1,288.3           | 19,869.0         | -40.7                      | -45.0          | -46.0                    | -246.0         | -46.0        | -246.0          |
| 1.3 विशेष आहरण अधिकार                     | 93.8              | 1,446.5          | -1.2                       | -5.1           | -5.8                     | -55.0          | -5.8         | -55.4           |
| 1.4 आईएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति | 150.5             | 2,320.7          | -2.1                       | -10.7          | -12.4                    | -135.1         | -12.4        | -135.6          |

### 3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास जमा नकदी शेष

(राशि ₹ बिलियन में)

| 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ (सीआरआर)= ₹ 4356.03 बिलियन | 2017     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                                   | 18 मार्च | 19 मार्च | 20 मार्च | 21 मार्च | 22 मार्च | 23 मार्च | 24 मार्च | 25 मार्च | 26 मार्च | 27 मार्च | 28 मार्च | 29 मार्च | 30 मार्च |
|                                                                                                                   | 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       | 11       | 12       | 13       |
| भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष                                                                      | 4,274.8  | 4,274.8  | 4,563.6  | 4,527.6  | 4,428.2  | 4,440.5  | 4,241.4  | 4,259.7  | 4,280.7  | 4,606.3  | 4,388.9  | 4,286.1  | 4,587.2  |
| औसत दैनिक सीआरआर के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष                                                                   | 98.1     | 98.1     | 104.8    | 103.9    | 101.7    | 101.9    | 97.4     | 97.8     | 98.3     | 105.7    | 100.8    | 98.4     | 105.3    |

# 4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ बिलियन)

| मद                                             | 17 मार्च 2017 को बकाया | निम्नलिखित अवधि में घटबढ़ |                      |                 |                |                 |
|------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|
|                                                |                        | पखवाड़ा                   | वित्त वर्ष में अब तक |                 | वर्ष-दर-वर्ष   |                 |
|                                                |                        |                           | 2015-2016            | 2016-2017       | 2016           | 2017            |
|                                                |                        |                           | 3                    | 4               | 5              | 6               |
| <b>1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं</b>      |                        |                           |                      |                 |                |                 |
| 1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां        | 1,648.3                | 45.3                      | 420.2                | 126.2           | 420.2          | 126.2           |
| 1.2 बैंकों से उधार                             | 552.1                  | 50.6                      | 245.8                | -91.9           | 245.8          | -91.9           |
| 1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं                | 68.2                   | 25.3                      | 22.8                 | -15.9           | 22.8           | -15.9           |
| <b>2 अन्य के प्रति देयताएं</b>                 |                        |                           |                      |                 |                |                 |
| 2.1 कुल जमाराशियां                             | 105,420.5              | -7.1                      | 7,940.0              | 12,147.6        | 7,940.0        | 12,147.6        |
| 2.1क वृद्धि (प्रतिशत)                          |                        | -0.0                      | 9.3                  | 13.0            | 9.3            | 13.0            |
| 2.1.1 मांग                                     | 11,612.3               | 797.4                     | 949.7                | 2,722.3         | 949.7          | 2,722.3         |
| 2.1.2 मीयादी                                   | 93,808.1               | -804.5                    | 6,990.4              | 9,425.2         | 6,990.4        | 9,425.2         |
| 2.2 उधारियां                                   | 3,232.4                | -129.6                    | 731.1                | 242.7           | 731.1          | 242.7           |
| 2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं                | 5,221.6                | -60.5                     | 468.4                | 181.2           | 468.4          | 181.2           |
| <b>3 रिज़र्व बैंक से उधार</b>                  | <b>24.6</b>            | <b>-5.6</b>               | <b>742.6</b>         | <b>-2,300.1</b> | <b>742.6</b>   | <b>-2,300.1</b> |
| <b>4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि</b> | <b>4,823.2</b>         | <b>-72.5</b>              | <b>184.5</b>         | <b>374.4</b>    | <b>184.5</b>   | <b>374.4</b>    |
| 4.1 उपलब्ध नकदी                                | 566.3                  | -7.3                      | 40.8                 | -8.1            | 40.8           | -8.1            |
| 4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि               | 4,256.9                | -65.2                     | 143.7                | 382.5           | 143.7          | 382.5           |
| <b>5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां</b>       |                        |                           |                      |                 |                |                 |
| 5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष                     | 1,828.2                | 39.4                      | 242.7                | 211.4           | 242.7          | 211.4           |
| 5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि         | 192.7                  | 65.8                      | 123.0                | -156.2          | 123.0          | -156.2          |
| 5.3 बैंकों को अग्रिम                           | 338.5                  | 5.1                       | 71.4                 | 77.9            | 71.4           | 77.9            |
| 5.4 अन्य आस्तियां                              | 257.1                  | -99.6                     | -50.8                | -120.7          | -50.8          | -120.7          |
| <b>6 निवेश</b>                                 | <b>32,076.6</b>        | <b>-1,231.4</b>           | <b>1,336.8</b>       | <b>5,821.5</b>  | <b>1,336.8</b> | <b>5,821.5</b>  |
| 6.1क वृद्धि (प्रतिशत)                          |                        | -3.7                      | 5.4                  | 22.2            | 5.4            | 22.2            |
| 6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में                    | 32,061.2               | -1,229.8                  | 1,341.8              | 5,821.9         | 1,341.8        | 5,821.9         |
| 6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में             | 15.3                   | -1.5                      | -5.0                 | -0.4            | -5.0           | -0.4            |
| <b>7 बैंक ऋण</b>                               | <b>75,656.7</b>        | <b>496.0</b>              | <b>7,131.9</b>       | <b>3,160.6</b>  | <b>7,131.9</b> | <b>3,160.6</b>  |
| 7.1क वृद्धि (प्रतिशत)                          |                        | 0.7                       | 10.9                 | 4.4             | 10.9           | 4.4             |
| 7क.1 खाद्य ऋण                                  | 558.6                  | -56.0                     | 108.4                | -493.9          | 108.4          | -493.9          |
| 7क.2 खाद्येतर ऋण                               | 75,098.1               | 551.9                     | 7,023.6              | 3,654.5         | 7,023.6        | 3,654.5         |
| 7ख.1 ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट                 | 73,633.6               | 494.5                     | 7,213.3              | 3,296.4         | 7,213.3        | 3,296.4         |
| 7ख.2 देशी बिल-खरीदे गए                         | 208.4                  | 3.8                       | -86.9                | -48.8           | -86.9          | -48.8           |
| 7ख.3 भुनाए गए                                  | 1,234.8                | 14.9                      | 88.7                 | -53.8           | 88.7           | -53.8           |
| 7ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए                       | 216.1                  | -2.4                      | -36.8                | 11.7            | -36.8          | 11.7            |
| 7ख.5 भुनाए गए                                  | 363.8                  | -14.8                     | -46.4                | -45.0           | -46.4          | -45.0           |

# 5. अनुपात और दरें

(प्रतिशत)

| मद/समाप्त सप्ताह                                          | 2016      | 2017      |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                           | 1 अप्रैल  | 3 मार्च   | 10 मार्च  | 17 मार्च  | 24 मार्च  | 31 मार्च  |
|                                                           | 1         | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| <b>अनुपात</b>                                             |           |           |           |           |           |           |
| आरक्षित नकदी निधि अनुपात                                  | 4.00      | 4.00      | 4.00      | 4.00      | 4.00      | 4.00      |
| सांविधिक चलनिधि अनुपात                                    | 21.50     | 20.50     | 20.50     | 20.50     | 20.50     | 20.50     |
| नकदी-जमाराशि अनुपात                                       | 5.50      | 4.64      | ..        | 4.58      | ..        | ..        |
| ऋण-जमाराशि अनुपात                                         | 77.46     | 71.29     | ..        | 71.77     | ..        | ..        |
| वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात                               | 73.75     | 21.92     | ..        | 26.02     | ..        | ..        |
| निवेश-जमाराशि अनुपात                                      | 26.70     | 31.59     | ..        | 30.43     | ..        | ..        |
| वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात                            | -13.02    | 58.03     | ..        | 47.92     | ..        | ..        |
| <b>दरें</b>                                               |           |           |           |           |           |           |
| नीतिगत रिपो दर                                            | 6.75      | 6.25      | 6.25      | 6.25      | 6.25      | 6.25      |
| रिवर्स रिपो दर                                            | 5.75      | 5.75      | 5.75      | 5.75      | 5.75      | 5.75      |
| मार्जिनल स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर                        | 7.75      | 6.75      | 6.75      | 6.75      | 6.75      | 6.75      |
| बैंक दर                                                   | 7.75      | 6.75      | 6.75      | 6.75      | 6.75      | 6.75      |
| आधार दर                                                   | 9.30/9.70 | 9.25/9.65 | 9.25/9.65 | 9.25/9.65 | 9.25/9.65 | 9.25/9.60 |
| एमसीएलआर (एक दिवसीय)                                      | 8.95      | 7.75/8.20 | 7.75/8.20 | 7.75/8.20 | 7.75/8.20 | 7.75/8.20 |
| सावधी जमा दर > 1 वर्ष                                     | 7.00/7.50 | 6.50/7.00 | 6.50/7.00 | 6.50/7.00 | 6.50/7.00 | 6.50/7.00 |
| बचत जमाराशि दर                                            | 4.00      | 4.00      | 4.00      | 4.00      | 4.00      | 4.00      |
| मांग मुद्रा दर (भारांकित औसत)                             | 7.35      | 5.96      | 5.97      | 5.99      | 5.95      | 5.97      |
| 91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय                         | 7.27      | 6.07      | 5.94      | 5.94      | 5.86      | 5.82      |
| 182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय                        | ..        | ..        | 6.14      | ..        | 6.05      | ..        |
| 364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय                        | 7.11      | 6.26      | ..        | 6.19      | ..        | 6.14      |
| 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय                             | 7.42      | 7.06      | 7.23      | 7.17      | 7.13      | 7.00      |
| <b>भारिबैं संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमिआ</b>              |           |           |           |           |           |           |
| भारतीय रुपया-अमरीकी डॉलर स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा) | 66.33     | 66.84     | 66.69     | 65.54     | 65.46     | 64.84     |
| भारतीय रुपया-यूरो स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)        | 75.10     | 70.35     | 70.64     | 70.61     | 70.47     | 69.25     |
| अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमिआ 1-माह                     | 6.78      | 5.21      | 5.58      | 5.68      | 5.22      | 5.09      |
| 3-माह                                                     | 6.63      | 5.15      | 4.98      | 5.13      | 5.01      | 4.97      |
| 6-माह                                                     | 6.57      | 5.00      | 4.80      | 4.94      | 4.87      | 4.90      |

## 6. मुद्रा भंडार : घटक और स्रोत

(₹ बिलियन)

| मद                                                 | निम्न को बकाया |           | निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ |       |                      |      |           |       |              |      |          |       |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------|-------|----------------------|------|-----------|-------|--------------|------|----------|-------|
|                                                    | 2016           | 2017      | पखवाड़ा                    |       | वित्त वर्ष में अब तक |      |           |       | वर्ष-दर-वर्ष |      |          |       |
|                                                    |                |           |                            |       | 2015-2016            |      | 2016-2017 |       | 2016         |      | 2017     |       |
|                                                    | 31 मार्च       | 17 मार्च  | राशि                       | %     | राशि                 | %    | राशि      | %     | राशि         | %    | राशि     | %     |
|                                                    | 1              | 2         | 3                          | 4     | 5                    | 6    | 7         | 8     | 9            | 10   | 11       | 12    |
| एम <sub>3</sub>                                    | 116,176.2      | 125,098.9 | 790.7                      | 0.6   | 10,702.2             | 10.1 | 8,922.7   | 7.7   | 10,763.7     | 10.2 | 8,895.1  | 7.7   |
| 1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)                            |                |           |                            |       |                      |      |           |       |              |      |          |       |
| 1.1 जनता के पास मुद्रा                             | 15,972.5       | 12,135.0  | 825.9                      | 7.3   | 2,073.6              | 15.0 | -3,837.6  | -24.0 | 2,073.1      | 15.0 | -3,800.4 | -23.8 |
| 1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि                     | 9,898.3        | 12,739.8  | 789.6                      | 6.6   | 990.1                | 11.1 | 2,841.5   | 28.7  | 990.3        | 11.1 | 2,833.4  | 28.6  |
| 1.3 बैंकों के पास मीयादी जमाराशि                   | 90,150.8       | 100,064.2 | -802.9                     | -0.8  | 7,649.3              | 9.3  | 9,913.4   | 11.0  | 7,654.7      | 9.3  | 9,837.3  | 10.9  |
| 1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि             | 154.5          | 159.9     | -22.0                      | -12.1 | -10.7                | -7.3 | 5.4       | 3.5   | 45.5         | 50.8 | 24.8     | 18.3  |
| 2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)                      |                |           |                            |       |                      |      |           |       |              |      |          |       |
| 2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण                          | 32,384.8       | 40,118.2  | -1,616.9                   | -3.9  | 2,385.7              | 7.9  | 7,733.4   | 23.9  | 2,392.3      | 8.0  | 7,658.6  | 23.6  |
| 2.1.1 रिज़र्व बैंक                                 | 4,250.0        | 5,959.7   | -381.2                     |       | 653.8                |      | 1,709.8   |       | 659.0        |      | 1,660.7  |       |
| 2.1.2 अन्य बैंक                                    | 28,134.9       | 34,158.4  | -1,235.7                   | -3.5  | 1,731.9              | 6.6  | 6,023.6   | 21.4  | 1,733.3      | 6.6  | 5,997.8  | 21.3  |
| 2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण                     | 78,030.7       | 81,302.1  | 529.8                      | 0.7   | 7,581.8              | 10.8 | 3,271.4   | 4.2   | 7,680.1      | 10.9 | 3,223.1  | 4.1   |
| 2.2.1 रिज़र्व बैंक                                 | 200.8          | 46.8      | 8.9                        |       | -61.5                |      | -154.0    |       | 32.3         |      | -40.2    |       |
| 2.2.2 अन्य बैंक                                    | 77,829.9       | 81,255.3  | 520.8                      | 0.6   | 7,643.3              | 10.9 | 3,425.4   | 4.4   | 7,647.8      | 10.9 | 3,263.2  | 4.2   |
| 2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां | 25,337.2       | 25,923.4  | -286.8                     | -1.1  | 2,622.7              | 11.7 | 586.2     | 2.3   | 2,803.3      | 12.6 | 794.3    | 3.2   |
| 2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं          | 219.1          | 246.2     | —                          | —     | 24.8                 | 12.7 | 27.1      | 12.4  | 24.8         | 12.7 | 27.1     | 12.4  |
| 2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुदेतर देयताएं         | 19,795.6       | 22,491.0  | -2,164.6                   | -8.8  | 1,912.8              | 10.8 | 2,695.3   | 13.6  | 2,136.7      | 12.2 | 2,807.9  | 14.3  |
| 2.5.1 रिज़र्व बैंक की निवल मुदेतर देयताएं          | 9,541.7        | 8,571.0   | -380.6                     | -4.3  | 1,675.5              | 21.3 | -970.7    | -10.2 | 1,555.9      | 19.5 | -957.2   | -10.0 |

## 7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ बिलियन)

| मद                                                               | निम्न को बकाया |          | निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ |      |              |      |          |       |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------------------|------|--------------|------|----------|-------|
|                                                                  | 2016           | 2017     | सप्ताह                     |      | वर्ष-दर-वर्ष |      |          |       |
|                                                                  |                |          |                            |      | 2016         |      | 2017     |       |
|                                                                  | 31 मार्च       | 31 मार्च | राशि                       | %    | राशि         | %    | राशि     | %     |
|                                                                  | 1              | 2        | 3                          | 4    | 5            | 6    | 7        | 8     |
| आरक्षित मुद्रा                                                   | 21,807.4       | 19,004.8 | 1,156.3                    | 6.5  | 2,522.8      | 13.1 | -2,802.6 | -12.9 |
| 1 घटक (1.1+1.2+1.3)                                              |                |          |                            |      |              |      |          |       |
| 1.1 संचलन में करेंसी                                             | 16,634.6       | 13,352.7 | 221.9                      | 1.7  | 2,151.5      | 14.9 | -3,282.0 | -19.7 |
| 1.2 रिज़र्व बैंक के पास बैंकर की जमाराशि                         | 5,018.3        | 5,441.3  | 895.9                      | 19.7 | 362.7        | 7.8  | 423.0    | 8.4   |
| 1.3 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि                           | 154.5          | 210.9    | 38.5                       | 22.3 | 8.6          | 5.9  | 56.4     | 36.5  |
| 2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)                                    |                |          |                            |      |              |      |          |       |
| 2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण                | 4,250.0        | 6,208.1  | -76.7                      |      | 604.7        |      | 1,958.2  |       |
| 2.1.1 रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण             | 4,245.6        | 6,195.9  | -62.5                      |      | 635.2        |      | 1,950.3  |       |
| 2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण | 3,045.4        | -3,092.8 | 1,106.8                    |      | 1,020.3      |      | -6,138.1 |       |
| 2.2.1 बैंकों पर रिज़र्व बैंक के निवल दावे                        | 2,844.5        | -3,165.7 | 1,085.9                    |      | 968.0        |      | -6,010.2 |       |
| 2.3 रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां                  | 23,834.8       | 23,972.1 | -120.1                     | -0.5 | 2,562.0      | 12.0 | 137.3    | 0.6   |
| 2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता                          | 219.1          | 250.9    |                            |      | 24.8         | 12.7 | 31.8     | 14.5  |
| 2.5 रिज़र्व बैंक की निवल मुदेतर देयता                            | 9,541.7        | 8,333.5  | -245.0                     | -2.9 | 1,689.0      | 21.5 | -1,208.3 | -12.7 |

## 8. भारिबैं द्वारा चलनिधि संबंधी लेनदेन

(₹ बिलियन)

| दिनांक        | चलनिधि समायोजन सुविधा |             |                     |                            | एमएसएफ | स्थायी चलनिधि सुविधा | बाजार स्थिरीकरण योजना | ओएमओ (एकमुश्त) |      | निवल अंतर्वेशन (+) / अवशोषण (-)<br>(1+3+5+6+9-2-4-7-8) |
|---------------|-----------------------|-------------|---------------------|----------------------------|--------|----------------------|-----------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------|
|               | रिपो                  | रिवर्स रिपो | परिवर्तनशील रिपो दर | परिवर्तनशील रिवर्स रिपो दर |        |                      |                       | विक्रय         | क्रय |                                                        |
|               | 1                     | 2           | 3                   | 4                          |        |                      |                       | 8              | 9    |                                                        |
|               | 1                     | 2           | 3                   | 4                          | 5      | 6                    | 7                     | 8              | 9    | 10                                                     |
| 27 मार्च 2017 | 14.55                 | 305.67      | 60.00               | 991.41                     | 3.50   | —                    | —                     | —              | —    | -1,219.03                                              |
| 28 मार्च 2017 | 30.45                 | 283.89      | —                   | —                          | 43.25  | —                    | —                     | —              | —    | -210.19                                                |
| 29 मार्च 2017 | 16.80                 | 886.32      | —                   | 2007.79                    | —      | 0.50                 | —                     | —              | —    | -2,876.81                                              |
| 30 मार्च 2017 | 66.90                 | 830.45      | —                   | 2008.91                    | 5.30   | —                    | —                     | —              | —    | -2,767.16                                              |
| 31 मार्च 2017 | 93.95                 | 1,351.77    | 4.90                | 689.52                     | 19.25  | -0.10                | —                     | —              | —    | -1,923.29                                              |

## 9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

| मद                                                           | 2016  |       | 2017  |       | निम्नलिखित अवधि में प्रतिशत घट-बढ़ |       |      |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|-------|------|
|                                                              | जनवरी | फरवरी | जनवरी | फरवरी | माह                                | मार्च | वर्ष |
|                                                              | 1     | 2     | 3     | 4     | 5                                  | 6     | 7    |
| 1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2012=100)                          | 126.3 | 126.0 | 130.3 | 130.6 | 0.2                                | 3.7   | 3.7  |
| 1.1 ग्रामीण                                                  | 128.1 | 127.9 | 132.4 | 132.6 | 0.2                                | 3.6   | 3.7  |
| 1.2 शहरी                                                     | 124.2 | 123.8 | 127.8 | 128.2 | 0.3                                | 3.6   | 3.6  |
| 2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2001=100) | 269.0 | 267.0 | 274.0 | 274.0 | 0.0                                | 2.2   | 2.6  |
| 3 थोक मूल्य सूचकांक (2004-05=100)                            | 175.4 | 174.1 | 184.6 | 185.5 | 0.5                                | 5.8   | 6.5  |
| 3.1 प्राथमिक वस्तुएं                                         | 252.5 | 245.8 | 255.7 | 258.1 | 0.9                                | 4.9   | 5.0  |
| 3.2 ईंधन और बिजली                                            | 170.3 | 168.4 | 201.2 | 203.8 | 1.3                                | 18.2  | 21.0 |
| 3.3 विनिर्मित उत्पाद                                         | 152.7 | 153.2 | 158.8 | 158.8 | 0.0                                | 3.0   | 3.7  |

## 10. जमा प्रमाणपत्र

| समाप्त पखवाड़ा | बकाया राशि<br>(₹ बिलियन) | पखवाड़े के दौरान        |                       |
|----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                |                          | जारी राशि<br>(₹ बिलियन) | ब्याज दर<br>(प्रतिशत) |
|                |                          | 1                       | 2                     |
| 3 मार्च 2017   | 1,460.7                  | 242.4                   | 6.12 – 6.71           |
| 17 मार्च 2017  | 1,388.3                  | 240.9                   | 6.16 – 6.68           |

## 11. वाणिज्यिक पत्र

| समाप्त पखवाड़ा | बकाया राशि<br>(₹ बिलियन) | पखवाड़े के दौरान        |                       |
|----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                |                          | जारी राशि<br>(₹ बिलियन) | ब्याज दर<br>(प्रतिशत) |
|                |                          | 1                       | 2                     |
| 28 फरवरी 2017  | 3,726.7                  | 772.3                   | 6.08 – 14.19          |
| 15 मार्च 2017  | 4,590.5                  | 1,500.2                 | 5.90 – 14.92          |

## 12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ बिलियन)

| मद                       | समाप्त सप्ताह |               |               |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                          | 1 अप्रैल 2016 | 24 मार्च 2017 | 31 मार्च 2017 |
|                          | 1             | 2             | 3             |
| 1 मांग मुद्रा            | 338.9         | 258.4         | 338.7         |
| 2 नोटिस/सावधि मुद्रा     | 74.1          | 11.9          | 30.7          |
| 3 सीबीएलओ                | 1,313.6       | 2,721.7       | 2,229.6       |
| 4 बाजार रिपो             | 1,029.5       | 1,343.3       | 2,384.7       |
| 5 कॉरपोरेट बांड में रिपो | 1.6           | 12.1          | 5.0           |

## 13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ बिलियन)

| 31 मार्च 2017 को | प्रमुख धारक |                   |               | कुल     |
|------------------|-------------|-------------------|---------------|---------|
|                  | बैंक        | प्राथमिक व्यापारी | राज्य सरकारें |         |
|                  | 1           | 2                 | 3             |         |
| 91-दिवसीय        | 323.7       | 243.5             | 146.2         | 1,056.9 |
| 182-दिवसीय       | 216.2       | 316.5             | 193.6         | 847.2   |
| 364-दिवसीय       | 512.3       | 551.8             | 26.3          | 1,416.8 |
| सीएमवी           | —           | —                 | —             | —       |

## 14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा ली गई बाजार उधारियां

(अंकित मूल्य ₹ बिलियन में)

| मद               | जुटाई गई सकल राशि             |                               |         | जुटाई गई निवल राशि            |                               |         |
|------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|---------|
|                  | 2016-17<br>(31 मार्च 2017 तक) | 2015-16<br>(1 अप्रैल 2016 तक) | 2015-16 | 2016-17<br>(31 मार्च 2017 तक) | 2015-16<br>(1 अप्रैल 2016 तक) | 2015-16 |
|                  | 1                             | 2                             | 3       | 4                             | 5                             | 6       |
| 1. भारत सरकार    | 5,820.0                       | —                             | 5,850.0 | 4,082.0                       | —                             | 4,406.3 |
| 2. राज्य सरकारें | 3,819.8                       | —                             | 2,945.6 | 3,426.5                       | —                             | 2,593.7 |

डब्ल्यूएसएस के लिए संकल्पनाएं तथा उन पर आधारित कार्यप्रणालियां डब्ल्यूएसएस हस्तपुस्तिका ([www.rbi.org.in/scripts/publicationsView.aspx?id=15762](http://www.rbi.org.in/scripts/publicationsView.aspx?id=15762)) में उपलब्ध है। समय श्रृंखला आंकड़े इंटरनेट पर <http://dbie.rbi.org.in> में उपलब्ध हैं।

श्री सुनिल कुमार द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगतसिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई – 400 001 की ओर से संपादित एवं प्रकाशित।